



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 11—फरवरी 17, 2012 (माघ 22, 1933)
No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 11—FEBRUARY 17, 2012 (MAGHA 22, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित)

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 2012

सूचना

सं. बीपीएमएम/आरपीडी/2563--एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्य करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की महासभा सोमवार, दिनांक 19 मार्च 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे स्टेट बैंक ऑडिटोरियम, स्टेट बैंक भवन कॉम्प्लेक्स, मादाम कामा रोड़, मुंबई-400021 (महाराष्ट्र) में आयोजित की जाएगी।

निम्नलिखित पर विचार करने और यदि उचित समझा गया, तो उसे संशोधन के साथ या बिना किसी संशोधन के एक विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना :

“संकल्प किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियमन, 1955 के साथ पठित भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 (यहां इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओई), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) तथा/अथवा अन्य दूसरे प्राधिकरण जिनकी इस संबंध में आवश्यकता हो सकती है, के अनुमोदन, सहमति

और संस्वीकृति, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन और उससे संबंधित ऐसे निबंधनों, शर्तों और अशोधनों के अध्यक्षीन जो उनके द्वारा ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं और जिनके संबंध में बैंक के केन्द्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की जा सकती है और सेबी (पूँजी का निर्गमन एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2009 यथा संशोधित (सेबी आईसीडीआर विनियमन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक और समय-समय पर अन्य सभी संबंध प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित विनियमनों के अध्यक्षीन और शेयर बाजारों, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं, के साथ किए गए सूचीबद्ध करारों के अध्यक्षीन बैंक के केन्द्रीय निदेशक बोर्ड को (यहां इसके बाद इसे बोर्ड कहा गया है, जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियमन, 1955 के विनियम 46 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत गठित केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति सम्मिलित हुई समझी जाएगी) लगभग रु. 7,900/- करोड़ की कुल राशि (प्रीमियम सहित) के प्रति रु. 10/- के नकद मूल्य के इक्विटी शेयर, ऐसी कीमत पर और ऐसी संख्या में, जिसे सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76(1) के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा, भारत सरकार के लिए अधिमानी आधार पर सृजित, प्रस्तावित और निर्गम करने के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति प्रदान की जाती है।”

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण की संबद्ध तिथि 17.02.2012 है।"

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि शेयरों के निर्गम, आबंटन और उनको सूचीबद्ध करने के लिए उनके अनुमोदन, सहमति, अनुमति और संस्वीकृतियां प्रदान करने/संस्वीकृत करने के समय इस प्रस्ताव में इस प्रकार के किसी ऐसे संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार एवं अधिकार बोर्ड के पास रहेगा जो भारत सरकार/भा.रि.बैंक/सेबी/शेयर बाजार, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं या अन्य दूसरे उपयुक्त प्राधिकरण के लिए आवश्यक हो सकते हैं या उनके द्वारा लागू किए जा सकते हैं और जिनके संबंध में बोर्ड द्वारा सहमति दी गई हो।"

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि उक्त इक्विटी शेयर सभी तरह से बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के साथ समरूप श्रेणी में रहेंगे और यदि लाभांश घोषित किया जाता है, तो ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभांश के लिए पात्र रहेंगे।"

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को लागू करने के प्रयोजन से बोर्ड को ऐसी सभी कार्रवाइयां और ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और ऐसी वस्तुएं, जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित और वांछनीय समझी जा सकती हों, करने के लिए तथा ऐसे किसी मामले, कठिनाई या संदेह का निवारण करने के लिए जो इक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में उठ सकते हैं, और इसके अतिरिक्त ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और वस्तुएं करने के लिए, ऐसे सभी दस्तावेजों और लिखावटों को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने के लिए जो आवश्यक, वांछनीय या उचित हो सकते हों और जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में, शेयरधारकों की अन्य किसी सहमति या अनुमोदन मांगने की आवश्यकता के बिना, सही, उचित या वांछनीय समझी जा सकती हो या इस उद्देश्य और इस अभिप्राय से प्राधिकृत करने से इस संकल्प को शेयरधारकों द्वारा स्पष्ट रूप से उनका अनुमोदन दिया हुआ समझा जाएगा।"

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि यहां उल्लिखित बोर्ड को प्रदत्त सभी या कोई अन्य अधिकार अध्यक्ष या किसी प्रबंध निदेशक या बैंक के किसी अन्य ऐसे अधिकारी को, जिसे उक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझा जा सकता है, प्रत्यायोजित करने के लिए बोर्ड को प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

दिनांक : 04 फरवरी, 2012

(प्रतीप चौधरी)

अध्यक्ष

1. व्याख्यात्मक विवरण

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गमन एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2009 के अनुसार किए जानेवाले आवश्यक प्रकटीकरण

क) अधिमानी निर्गम के उद्देश्य :

बैंक की टियर 1 पूंजी में वृद्धि करने हेतु, भारत सरकार ने भारत सरकार के पक्ष में, ईक्विटी शेयर के अधिमानी निर्गम के द्वारा बैंक की पूंजी में लगभग रु. 7900 करोड़ (प्रीमियम सहित) का निवेश करने का निर्णय लिया है।

ख) निर्गम में अभिदान करने हेतु प्रवर्तक का प्रस्ताव :

ईक्विटी शेयर के कुल अधिमानी निर्गम में बैंक के प्रवर्तक, भारत सरकार द्वारा संपूर्ण अभिदान किया जाएगा।

ग) अधिमानी निर्गम के पहले और बाद में निर्गमकर्ता की शेयरधारिता का पैटर्न :

क्र सं	श्रेणी	निर्गम से पूर्व (31.01.2012 को)		निर्गम के पश्चात	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
i	प्रवर्तक की शेयरधारिता (भारत सरकार)	37,72,07,200	59.40	**	**
ii	जनता की शेयरधारिता	25,77,92,395	40.60	25,77,92,395	**
iii	योग	63,49,99,595	100.00	**	100.00

** भारत सरकार को आबंटित किए जानेवाले कुल शेयरों की गणना, सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76(1) में निर्धारित मूल्य निर्धारण सूत्र के अनुसार, "प्रासंगिक तारीख" को निर्धारित किए जानेवाले निर्गम के मूल्य के आधार पर की जाएगी। पूर्वोक्त विनियम 76(1) के अनुसार, निर्गम का मूल्य, "प्रासंगिक तारीख" से 26 सप्ताह पूर्व और "प्रासंगिक तारीख" से 2 सप्ताह बाद की अवधि के दौरान शेयर बाजार में, भारतीय स्टेट बैंक के उद्धृत बंदी मूल्य के उच्च और न्यून साप्ताहिक मूल्य के उच्चतर औसत मूल्य से कम नहीं होगा। "प्रासंगिक तारीख", अधिमानी आबंटन पर विचार करने हेतु, आयोजित शेयरधारकों की महासभा की तिथि से 30 दिन पूर्व की तारीख होती है और यदि यह तारीख अवकाश के दिन/सप्ताहांत के दिन पड़ती है, तो इससे पहले की तिथि "प्रासंगिक तारीख" के रूप में गिनी जाएगी। उपर्युक्त उद्देश्य से 'शेयर बाजार' कोई भी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार होगा जिसमें ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए जाते हैं और जिसमें "प्रासंगिक तारीख" से 26

सप्ताह पूर्व की अवधि के दौरान, बैंक के शेयरों की उच्चतम मात्रा का व्यापार किया गया हो। इस प्रकार निर्गम किए जानेवाले शेयरों का (प्रीमियम सहित) कुल मूल्य रु. 7,900/- करोड़ से अधिक नहीं होगा। उदाहरणार्थ, 31.01.2012 की कल्पित "प्रासंगिक तारीख" के आधार पर गणना करने पर, रु. 1989 के कल्पित निर्गम मूल्य पर, अधिमानी आबंटन के पश्चात भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों की संख्या 41,69,25,651 होगी और अधिमानी आबंटन के पश्चात, बैंक के शेयरों की कुल संख्या 67,47,18,046 होगी और इसलिए अधिमानी आबंटन के पश्चात भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत 61.79 होगा। तथापि, निर्गम किए जानेवाले शेयरों की वास्तविक संख्या और तत्पश्चात शेयरधारिता का पैटर्न, वास्तविक "प्रासंगिक तारीख" अर्थात् 17 फरवरी, 2012 के आधार पर, निर्धारित किए जानेवाले वास्तविक निर्गम मूल्य के आधार पर घट-बढ़ सकता है।

घ) अधिमानी निर्गम पूरा होने की समय-सीमा :

शेयरधारकों द्वारा पारित इस संकल्प के अनुसार, इस संकल्प को पारित किए जाने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के अंदर आबंटन कार्य पूरा कर लिया जाएगा। परन्तु यदि किसी विनियमन प्राधिकारी अथवा केंद्र सरकार से कोई अनुमोदन अथवा अनुमति बकाया हो, तो 15 दिन की इस अवधि की गणना ऐसे आवेदन पर आदेश की तिथि से या अनुमोदन अथवा अनुमति की तिथि से, जैसी भी स्थिति हो, की जाएगी।

ङ) प्रस्तावित आबंटितियों की पहचान, अधिमानी निर्गम के पश्चात उनके द्वारा धारित पूंजी का प्रतिशत और अधिमानी निर्गम के परिणामस्वरूप निर्गमकर्ता के नियंत्रण में परिवर्तन, यदि कोई हो :

चूंकि संपूर्ण निर्गम, बैंक के प्रमुख शेयरधारक और प्रवर्तक भारत सरकार को आबंटित किया जाना प्रस्तावित है, अतः अधिमानी आधार पर, प्रस्तावित अधिमानी निर्गम के परिणामस्वरूप नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

प्रस्तावित आबंटिती की पहचान	आबंटित किए जाने वाले ईक्विटी शेयरों की संख्या	निर्गम पश्चात शेयरधारिता का %
भारत सरकार जिसका प्रतिनिधित्व भारत के राष्ट्रपति (प्रवर्तक) द्वारा किया जाता है।	** उपर्युक्त (ग) में की गई टिप्पणी के अनुसार	** उपर्युक्त (ग) में की गई टिप्पणी के अनुसार

(च) बैंक के ईक्विटी शेयर छह महीने से भी अधिक की अवधि से सूचीबद्ध हैं और तदनुसार सेबी आईसीडीआर के विनियम 76 (3) और 78 (5) के प्रावधान और सेबी आईसीडीआर के विनियम 73 (1) (च) और (छ) के अंतर्गत प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(छ) प्रस्तावित विशेष संकल्प के अनुसरण में भारत सरकार को निर्गम और आबंटित किए जाने वाले सभी ईक्विटी शेयर आबंटन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक अवरुद्ध रहेंगे और अधिमानी आबंटन से पूर्व भारत सरकार की पूर्ण शेयरधारिता, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार आबंटन की तिथि से छह महीने की अवधि तक अवरुद्ध रहेगी।

(ज) निर्गम, सेबी आईसीडीआर विनियमन अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है, इस बात को प्रमाणित करने वाले सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रमाणपत्र, 19 मार्च 2012 की महासभा में रखा जाएगा।

भारत सरकार द्वारा धारित सभी ईक्विटी शेयर गैर-कागजी स्वरूप में हैं और बैंक उन शेयर बाजारों में जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं, के सूचीबद्धता करार में निर्दिष्ट ईक्विटी शेयर्स की निरंतर सूचीबद्धता संबंधी शर्तों का अनुपालन करता है।

2. टिप्पणियां

प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची :

बैंक के पात्र शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्चियां हमारे स्थानीय प्रधान कार्यालयों में मुख्य महाप्रबंधक के सचिवालय, प्रशासनिक कार्यालयों में, बैंक की वेबसाइट : www.statebankofindia.com/www.sbi.co.in पर कारपोरेट गवर्नेन्स/शेयरधारक इन्फो लिंक के अंतर्गत और निम्नलिखित कार्यालयों में भी उपलब्ध हैं :

- (1) शेयर एवं बॉण्ड विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई- 400021 – टेलीफोन नं. (022)-22740841-48.
- (2) मेसर्स डाटामेटिक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लि., यूनिट : भारतीय स्टेट बैंक, प्लॉट नं. बी-5, पार्ट-बी, क्रास लेन, एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400093, टेलीफोन नं. (022)-66712201-03.

उपस्थिति पर्चियां दिनांक 19 मार्च 2012 को महासभा के स्थल पर भी उपलब्ध रहेंगी।

विधिवत रूप से भरे हुए प्रॉक्सी फॉर्म और साथ में मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (जहां लागू हो) जो हस्ताक्षरित हो, बैंक के शेयर एवं बॉण्ड विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई- 400021 में शनिवार, दिनांक 10 मार्च 2012 को अपराह्न 2.30 बजे तक या उससे पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए।

प्राधिकृत प्रतिनिधि

महासभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अपने किसी अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करने वाली शेयरधारक कंपनी को इसके लिए एक विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव की एक प्रति को उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया जाएगा जिस बैठक में इस प्रकार का संकल्प पारित किया गया है, बैंक के निम्नलिखित दो कार्यालयों में से किसी एक कार्यालय में बुधवार, दिनांक 14 मार्च 2012 को शाम 5.30 बजे तक या उससे पूर्व जमा करानी चाहिए :

- (i) शेयर एवं बॉण्ड विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, मुंबई- 400021.
- (ii) मुख्य महाप्रबंधक का सचिवालय, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, सनर्जी, सी-6, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई – 400051.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 जनवरी 2012

सं. एफ-3-5/2011-यू. II--इस मंत्रालय की अधिसूचना सं. एफ-3-2/2006-यू. II, दिनांक 10.04.2007 के अनुक्रम में, निम्नलिखित राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरों को दिनांक 01.12.2011 से पांच वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए सिफारिश की जाती है :--

1. प्रो. विपिन चन्द्रा, इतिहासकार, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली।

2. प्रो. आन्द्रे बेटिली, समाजशास्त्री, 69, जोर बाग, नई दिल्ली-110003।

वे राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप स्कीम (1949) के अंतर्गत विद्यमान निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार 75,000/- प्रतिमास मानदेय के पात्र होंगे।

हरप्रीत सिंह
निदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

सं. एन-15/13/1/10/2011-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 सितम्बर, 2011 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा आंध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :--

“करीमनगर जिले के जगतियाल मण्डल में जगतियाल नगर निगम की सीमा में आने वाले सभी क्षेत्र तथा मल्लियाल मण्डल के राजारम और रामन्नापेट राजस्व गाँव चलगल, धारूर, अंतरगाँव, नरसिंगपुर, तारकानगर (नरसिंगपुर से संबद्ध खेड़ा गाँव), तिप्पन्नापेट, हैदरपल्लि (तिप्पन्नापेट से संबद्ध खेड़ा गाँव), पोरंडला, कन्डलापल्लि, जबितापुर, लक्ष्मीपुर, वेंगलापुर, गोल्लापल्लि (वेंगलापुर से संबद्ध खेड़ा गाँव), मोथे, वेल्दुथी, रघुरामकोट तिम्मापुर, रघुरामकोट (तिम्मापुर से संबद्ध खेड़ा गाँव)।”

आर. सी. शर्मा
निदेशक (यो. एवं वि.)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 2012

सं. एन-15/13/11/4/2011-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 फरवरी, 2012 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95क तथा पंजाब कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पंजाब

राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :--

क्रमांक	राजस्व गाँव का नाम	हदबस्त संख्या	तहसील	जिला
1.	इसमैलपुर	210	खन्ना	लुधियाना
2.	भादला नीचा	213	खन्ना	लुधियाना
3.	ललहेड़ी	219	खन्ना	लुधियाना
4.	सिंहपुरा	111	मोहाली	मोहाली

एच. के. मेहता
उप निदेशक (यो. एवं वि.)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

नई दिल्ली-110058, दिनांक 17 जनवरी 2012

शुद्धि पत्र

संचयिका संख्या 20-7/2011-CR(G.N.)--भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है :--

1. भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या 28 दिनांक 14 जुलाई, 2007 में प्रकाशित बिहार राज्य से संबंधित भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय पंजिका में क्रम संख्या 95787 पर विवेक के स्थान पर विवेक शर्मा पढ़ा जाए।

2. भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या 51 दिनांक 17 दिसम्बर, 1994 में प्रकाशित केरल राज्य से संबंधित भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय पंजिका में क्रम संख्या 27391 पर के. जी. पद्मानाभा प्रभू के स्थान पर कोवियाक्कम किझाके मैडम पढ़ा जाए।

3. भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या 40 दिनांक 05 अक्टूबर, 1996 में प्रकाशित महाराष्ट्र राज्य से संबंधित भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय पंजिका में क्रम संख्या 47688 पर मरकुटे मीनाल बालकृष्ण सुपुत्री श्री मरकुटे बालकृष्ण के स्थान पर डॉ. (श्रीमती) लाड मीना दीपक पढ़ा जाए।

प्रेमराज शर्मा
रजिस्ट्रार

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

नई दिल्ली, दिनांक

सं. 13-32/2012--के. हो. प./के. हो. र.-भाग-I--केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (पंजीकरण) विनियम, 1982 के विनियम 9, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59वाँ) की धारा 21, 25 एवं 26 के साथ पठित, के अनुसरण में भारत के राजपत्र में क्रमशः 09.10.2004, 15.11.2008 एवं 24.04.2010 को प्रकाशित केन्द्रीय होम्योपैथी पंजिका (भाग-I) में से निम्न नामों/प्रविष्टियों को हटाया जाता है :--

ललित वर्मा
रजिस्ट्रार

अरुणाचल प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश पार्ट-I

क्रम सं०	नाम	पिता / पति का नाम	पता : (क) निवास स्थान (ख) व्यवसाय	अर्हताएं (क) साधारण (ख) आयुर्विज्ञान संबंधी	अर्हताएं प्राप्त करने की तारीख	उस संस्था का नाम जहां से रजिस्टर किए जाने योग्य अर्हताएं प्राप्त की गई थी	राज्य जिसमें रजिस्ट्रीकृत है और राज्य रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने वाला प्राधिकारी	राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण की तारीख	राज्य रजिस्टर में दिया गया रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	अतिरिक्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं तथा उन्हें प्राप्त करने की तारीख और अर्हता प्रदत्त करने वाले प्राधिकारी का नाम	यदि केन्द्रीय रजिस्टर से हटाया गया है तो उसकी तारीख और उसका / उसके कारण	मूल केन्द्रीय पंजिका रजिस्टर भाग-1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	डॉ० समीर कुमार डे	श्री. महवरा मोहन डे	1) पी.ओ. एण्ड विलेज बेराबरी, हुगली 2) एस.एम.ओ. (एच) पी. एच.सी. बोरडुमसा, चांगलंग जिला (ए.पी.)	डी.एम.एस	जून-77	काउंसिल ऑफ होम्योपैथी मेडिसन सेंट्रल बंगाल	अरुणाचल प्रदेश	05/09/01	18		राज्य रजिस्टर से हटाए जाने के कारण	37878 (सी.आर.एच) 15/11/08
2	डॉ० प्रनब कुमार निओग	श्री. मोनू निओग	डी.एस.टी. कालोनी दापोरजो, जिला अपर सुबनसिरी, (अरुणाचल प्रदेश)	डी.एच.एम.एस	अक्टूबर-98	बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसन असम (सी.सी.एच रेगुलेशन)	अरुणाचल प्रदेश	26/04/02	29		तदैव	38907 (सी.आर.एच) 15/11/08
3	डॉ० (मिसेज) नालिनी प्रवा बेहरा	श्री. आनंदा राम बेहरा	सी/ओ. लिंगराज बेहरा, डिपार्ट. ऑफ कैमिस्ट्री एन.ई.आर.आई. एस.टी., पी.ओ., निरपुली	बी.एच.एम.एस	अगस्त-01	सम्बलपुर यूनिवर्सिटी	अरुणाचल प्रदेश	16/01/03	32		तदैव	37613 (सी.आर.एच) 15/11/08
4	डॉ० सुरेंद्र कुमार	श्री. जगनाथ प्रसाद	सी/ओ. प्रिंसिपल नार्थ ईस्ट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल विवेक विहार, ईटाकार, अरुणाचल प्रदेश	बी.एच.एम.एस	मई-89	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर, बिहार यूनिवर्सिटी	अरुणाचल प्रदेश	17/01/03	33		तदैव	38565 (सी.आर.एच) 15/11/08

ललित वर्मा
रजिस्ट्रार

5	डॉ० पेनी रिडा	श्री. गिपे रिडा	विलेज लीरोमोबा, पी.ओ. लीरोमोबा, वेस्ट सियांग (ए.पी.)	बी.एच.एम.एस	जुलाई-03	यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता	अरुणाचल प्रदेश	26/09/03	35	तदैव	39290 (सी.आर.एच) 15/11/08
6	डॉ० विवेक कुमार	श्री. रविन्द्र कुमार सिंह	सी/ओ. प्रिंसिपल नार्थ ईस्ट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल विवेक विहार, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	बी.एच.एम.एस	नवम्बर-98	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर, बिहार यूनिवर्सिटी	अरुणाचल प्रदेश	30/01/04	39	राज्य रजिस्टर से हटाए जाने के कारण	38582 (सी.आर.एच) 15/11/08
7	डॉ० कनक कुमार	श्री. राम सुन्ना ए.डी	सी/ओ. प्रिंसिपल नार्थ ईस्ट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल विवेक विहार, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	बी.एच.एम.एस	अगस्त-99	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर, बिहार यूनिवर्सिटी	अरुणाचल प्रदेश	30/01/04	40	तदैव	38486 (सी.आर.एच) 15/11/08
8	डॉ० दिपनविता दास	श्री. ए.एन. दास	दयाल होम्यो. क्लीनिक फगा सेपो कॉम्प्लेक्स न्यू कालोनी रोडिंग, पी. ओ. राईग (ए.पी.)	डी.एच.एम.एस	अगस्त-03	बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, गुवाहाटी असम (सी.सी. एच रेगुलेशन)	अरुणाचल प्रदेश	30/04/05	48	तदैव	37845 (सी.आर.एच) 15/11/08
9	डॉ० दिनेश सहजपाल	श्री. आर.जी. सहजपाल	वार्ड नं०. 1, नालागढ़, जिला-सोलन	डी.एच.एम.एस	1989	बिहार यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर	हिमाचल प्रदेश	21/07/90	65-ए	तदैव	28238 (सी.आर.एच) 09/10/04
10	डॉ० सुरूपि सूद	श्री. वेद प्रकाश सूद	एच.आई.जी. नं०. 46, फेस-II, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, सापरून, सोलन	बी.एच.एम.एस	2006	पंजाब यूनिवर्सिटी	हिमाचल प्रदेश	06/08/08	199-ए	तदैव	47177 (सी.आर.एच) 24/04/10

सं. 13-32/2012--के. हो. प./के. हो. र.-भाग-II--केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (पंजीकरण) विनियम, 1982 के विनियम 9, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59वाँ) की धारा 21, 25 एवं 26 के साथ पठित, के अनुसरण में भारत के राजपत्र में क्रमशः 02.01.1993 (28.10.2006 को नवीनीकरण), 09.10.2004 एवं 15.11.2008 को प्रकाशित केन्द्रीय होम्योपैथी पंजीका भाग-II में से निम्न नामों/प्रविष्टियों को हटाया जाता है :-

अरुणाचल प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश पार्ट-II

क्रम सं०	नाम	पिता / पति का नाम	पता : (क) निवास स्थान (ख) व्यवसाय	राज्य जिसमें रजिस्ट्रीकृत है और राज्य रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने वाला प्राधिकारी	राज्य रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रीकरण की तारीख	राज्य रजिस्ट्रार में दिया गया रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	यदि केन्द्रीय रजिस्ट्रार से हटाया गया है तो उसकी तारीख और उसका / उसके कारण	मूल केन्द्रीय पंजीका रजिस्ट्रार भाग-II
1	2	3	4	8	9	10	12	13
1	श्री. बाली नरेन्द्र नाथ	स्व. गुरुसरन बाली	क्वाटर टी-III, ई-सेक्टर, नाहरलागुन पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट-अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	08/11/2000	2	राज्य रजिस्ट्रार से हटाए जाने के कारण	60536 (सी.आर.एच. 15/11/2008)
2	महेन्द्र कुमार सकसैना	श्री. जे.एस. सकसैना	क्वाटर 565 'डी' सेक्टर नाहरलागुन, अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	08/11/2000	4	तदैव	60550 (सी.आर.एच. 15/11/2008)
3	मिसेज. मॉन्जू रानी पौल	श्री. रनीत कुमार पौल	रामा कृष्णा सारानी, सोरई रोड पी.ओ. लिंक रोड सिलीचर, जिला-काचर (असम) पिन-780006	अरुणाचल प्रदेश	04/12/2000	9	तदैव	60539 (सी.आर.एच. 15/11/2008)
4	श्री. रनजीत कुमार पौल	स्व. हृदय रंजन पौल	रामा कृष्णा सारानी, सोरई रोड पी.ओ. लिंक रोड सिलीचर, जिला-काचर (असम) पिन-780006	अरुणाचल प्रदेश	04/12/2000	10	तदैव	60540 (सी.आर.एच. 15/11/2008)

5	श्री. कैलाश चन्द डिडवानिया	श्री. बाबू लाल	सम्राट 19 आकाशदीप कॉम्पलैक्स गंगा, ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश)	अरुणाचल प्रदेश	15/11/2000	13	तदैव	60521 (सी.आर.एच. 15/11/2008)
6	मिसेज. तिलोत्तमा राय	श्री. शंकर तिलोत्तमा	क्वाटर नं०. आर.सी.सी. एफ-सेक्टर, नाहरलागुन (ए.पी.)	अरुणाचल प्रदेश	13/11/2000	20	तदैव	60542 (सी.आर.एच. 15/11/2008)
7	श्री. शंकर चन्द्र राय	स्व. सतोष चन्द्र राय	सी/ओ. श्री अजित शर्मा, हाउस नं०.41 गौधी बस्ती पी. ओ. सिलपुखरी, पिन नं०. 781003 गुवाहाटी, (असम) पब-सारानिया	अरुणाचल प्रदेश	13/11/2000	21	राज्य रजिस्टर से हटाए जाने के कारण	60543 (सी.आर.एच. 15/11/2008)
8	श्री. जनक कुमार सरकार	स्व. बी.के. सरकार	रेमेडी होम्यो. क्लीनिक निरजुली, अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	27/11/2000	24	तदैव	60547 (सी.आर.एच. 15/11/2008)
9	श्री. निरोद रंजन मण्डल	श्री. नागेन्द्र मण्डल	1) उत्तर भोमरागुरी पी.ओ. अमलागन, जिला-नौगांव (असम) 2) सी/ओ. जगदीश होम्यो. क्लीनिक (अम्बागन) विलेज उत्तर भोमरागुरी पी.ओ. अम्बागन, पिन-782120, जिला-नौगांव (असम)	अरुणाचल प्रदेश	03/09/2002	26	तदैव	60528 (सी.आर.एच. 15/11/2008)

10	डॉ० सौदागर मल मिनोचा	श्री. जे.डी. मिनोचा	डेजी बैंक, जाखू, शिमला	हिमाचल प्रदेश	12/03/1984	3-बी	तदैव	13286 (सी.आर.एच. 02/01/1993)
11	डॉ० मणि राम चौहान	श्री. जे.आर. चौहान	विलेज दौला, पी.ओ. धुवाला, देहरा, कनगर	हिमाचल प्रदेश	22/02/1985	68-बी	तदैव	1804 3863 (सी.आर.एच. 02/01/1993)
12	डॉ० के.पी. मट्ट	श्री. नित्या नंद	35/4, नाभा हाउस, शिमला-4	हिमाचल प्रदेश	25/04/1985	247-बी	राज्य रजिस्टर से हटाए जाने के कारण	524 2727 (सी.आर.एच. 02/01/1993) 469 (नवीनीकरण 28/10/06)
13	डॉ० विक्रम आनंद	श्री. जे.के. आनंद	नीलाकंठ, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, जाखू, शिमला-1	हिमाचल प्रदेश	16/08/1985	664-बी	तदैव	829 (सी.आर.एच. 02/01/1993) 127 (नवीनीकरण)
14	डॉ० मन मोहन के. बंसल	श्री. ए.आर. बंसल	बंसल कॉटेज, पार्क, कालोनी, सन्जाउली, शिमला	हिमाचल प्रदेश	20/05/1985	385-बी	तदैव	59234 (सी.आर.एच. 09/10/2004)
15	डॉ० आर.पी. रईस	श्री. डी.सी. रईस	फलोरा होटल, शिमला-1	हिमाचल प्रदेश	23/05/1985	411-बी	तदैव	59999 (सी.आर.एच. 09/10/2004)

STATE BANK OF INDIA
(Constituted under the State Bank of India Act, 1955)
New Delhi, the 7th February 2012

NOTICE

No. BPMM/RPD/2563—NOTICE IS HEREBY GIVEN that a General Meeting of the Shareholders of State Bank of India will be held on Monday, the 19th March, 2012 at 11.00 a.m. in the State Bank Auditorium, State Bank Bhavan Complex, Madame Cama Road, Mumbai-400021 (Maharashtra) to transact the following business:

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following as a special resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the State Bank of India Act 1955 (hereinafter referred to as the ‘Act’) read with the State Bank of India General Regulations, 1955 and subject to the approval, consent and sanction, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GoI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Central Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009, as amended (SEBI ICDR Regulations) and Regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Central Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include the Executive Committee of the Central Board constituted under Section 30 of the Act read with Regulation 46 of the State Bank of India General Regulations, 1955, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, offer, issue and allot such number of Equity Shares of Rs.10/- each for cash at such price to be determined by the Board in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations, aggregating to the extent of approximately Rs.7900 crore (including premium), on preferential basis to **“Government of India.”**

“RESOLVED FURTHER THAT the Relevant date for determination of the Issue Price is 17.02.2012.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GoI/RBI/SEBI/ Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions for the issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank pari-passu with the existing equity shares of the Bank in all respects and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board be and is hereby authorized to take all such actions and do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any other consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman or any of the Managing Directors or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

Date: 4th February 2012

(PRATIP CHAUDHURI)
CHAIRMAN

1. EXPLANATORY STATEMENT

Disclosures as required to be made in terms of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009.

a) Objects of the Preferential Issue:

To augment Tier I Capital of the Bank, the Government of India has decided to infuse approximately upto Rs.7900 crore (including premium) in the capital of the Bank by way of preferential issue of equity shares in favour of the Government of India.

b) Proposal of the promoter to subscribe to the offer:

The entire Preferential Issue of equity shares will be subscribed by the Government of India, the Promoter of the Bank.

c) Shareholding pattern of the issuer before and after the preferential issue:

Sr. no.	Category	Before the issue (As on 31.01.2012)		After the issue	
		No. of shares held	Percentage of shareholding	No. of shares held	Percentage of shareholding
i	Promoter's shareholding (Government of India)	37,72,07,200	59.40	**	**
ii	Public shareholding	25,77,92,395	40.60	25,77,92,395	**
iii	Total	63,49,99,595	100.00	**	100.00

** The total number of shares to be allotted to GoI will be calculated on the basis of the issue price to be determined as on the "relevant date" in terms of the pricing formula as prescribed in Regulation 76(1) of the SEBI ICDR Regulations. In terms of the aforesaid Regulation 76(1), the issue price shall not be less than the higher of the average of the weekly high and low of the closing prices of SBI's shares quoted on the stock exchange during the period of twenty six weeks preceding the "relevant date" and of two weeks preceding the "relevant date". The "relevant date" is the date 30 days prior to the date of the General Meeting of the shareholders held to consider the preferential allotment and if such date happens to fall on a Holiday/Weekend, then the preceding date is the reckoned "relevant date". The 'stock exchange' for the above purpose will be any of the recognized stock exchanges in which the equity shares are listed and in which the highest trading volume of the Bank's shares has been recorded during the preceding twenty six weeks prior to the relevant date. The total value of the number of shares so issued (including premium) shall aggregate to not more than Rs.7,900 crore. For example, at an assumed Issue Price of Rs.1989, calculated based on an assumed "relevant date" of 31.01.2012, the number of shares held by GoI post preferential allotment would be 41,69,25,651 shares and the total number of shares of the Bank post preferential allotment would be 67,47,18,046 shares and therefore, the percentage of shareholding of GoI post the preferential allotment will be 61.79%. However, the actual number of shares to be issued and the shareholding pattern thereafter, may increase or decrease based on the actual issue price to be determined on the basis of the actual relevant date i.e. 17th February, 2012.

d) Time within which the preferential issue shall be completed:

The allotment pursuant to this resolution passed by the shareholders, shall be completed within a period of fifteen days from the date of passing of this resolution, provided that if any approval or permission by any regulatory authority or the Central Government for allotment is pending, the period of fifteen days shall be counted from the date of order on such application or the date of approval or permission, as the case maybe.

e) Identity of the proposed Allottees, the percentage of post preferential issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue:

As the entire issue is proposed to be allotted to Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank, on preferential basis, there would not be any change in control as a result of the proposed preferential issue.

Identity of the Proposed Allottee	No of equity shares to be allotted	% of post issue shareholding
Govt. of India represented by the President of India (Promoter)	** as per the remarks given at c) above	** as per the remarks given at c) above

f) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76(3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations and disclosures under Regulation 73(1) (f) & (g) of SEBI ICDR Regulations are not applicable.

g) All the equity shares to be issued and allotted to the Government of India pursuant to the proposed special resolution, shall be locked in for a period of three years from the date of allotment and the entire pre-preferential allotment shareholding of GoI will be locked in from the relevant date upto a period of six months from the date of allotment, in accordance with the SEBI ICDR Regulations.

h) The certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of SEBI ICDR Regulations will be tabled at the General Meeting on 19th March, 2012.

All the equity shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

2. NOTES

PROXY FORM & ATTENDANCE SLIP:

Bank's eligible shareholders are advised that the Proxy Forms and Attendance Slips are available in the Secretariat of Chief General Managers of our Local Head Offices, Administrative Offices, Bank's websites: www.statebankofindia.com/www.sbi.co.in under the link Corporate Governance/SHAREHOLDERS INFO and also at the following offices:

- (1) Shares & Bonds Department, State Bank of India, Central Office, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Mumbai – 400 021, Telephone: (022)2274 0841- 48.
- (2) M/s Datamatics Financial Services Ltd., Unit: State Bank of India, Plot No. B-5, Part B, Cross Lane, MIDC, Andheri (East), Mumbai-400093. Telephone: (022) 66712201-03.

Attendance Slips will also be available at the venue of the General Meeting on 19th March, 2012.

Duly executed proxy forms, together with power of attorney or other authority (where applicable) under which it is signed, must be received at the Bank's Shares & Bonds Department, State Bank of India, Central Office, Madame Cama Road, Mumbai – 400 021 on or before Saturday, the 10th March 2012 by 2.30 pm.

AUTHORIZED REPRESENTATIVE

Shareholders, being a company, authorizing any of its officials or any other person to act as their representative in the General Meeting should deposit a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which such resolution was passed, at any of the following two offices of the Bank, on or before Wednesday, the 14th March 2012 by 5.30 pm:

- 1) Shares & Bonds Department, State Bank of India, Central Office, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Mumbai – 400 021.
- 2) Secretariat of the Chief General Manager, State Bank of India, Local Head Office, Synergy, "C 6", G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 11th January 2012

No. F-3-5/2011-U-II—In continuation of this Ministry's Notification No. F-3-2/2006-U-II, dated 10.04.2007, the following National Research Professors have been recommended for second term of five years with effect from 01.12.2011 :—

1. Prof. Bipan Chandra, Historian, Chairman, National Book Trust of India, Green Park, New Delhi.
2. Prof. Andre Beteille, Sociologist, 69, Jor Bagh, New Delhi-110003.

They will be entitled to an honorarium of Rs. 75,000/- per month in accordance with the existing terms and conditions under the Scheme of National Research Professorship (1949).

HARPREET SINGH
Director

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 10th October 2011

No. N-15/13/1/10/2010-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st July, 2011 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh, namely :—

"All the areas falling within the Limits of Jagitial Municipality and the Revenue Villages of Rajaram and Ramannapet of Mallial Mandal, Chalgai, Dharapur, Anthargoan, Narsingapur, Tharakanagar (H/o Narsingapur) Thippannapet, Hyderpalli [(H) of Thippannapet] Porandla, Kandlapalli, Jabithapur, Laxmipur, Venglapur, Gollapalli [(H) of Venglapur] Mothe, Veldurthi, Raghuramkota Thimmapur, Raghuramkota [(H) of Thimmapur] of Jagitial Mandal of Karimnagar District of Andhra Pradesh."

R. C. SHARMA
Director (P&D)

New Delhi, the 12th January 2012

No. N-15/13/11/4/2011-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st February, 2012 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Punjab Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families

of insured persons in the following area in the State of Punjab namely :—

Sl. No.	Name of the Village	Had Bast No.	Tehsil	District
1.	Ismail Pur	210	Khanna	Ludhiana
2.	Bhadla Neecha	213	Khanna	Ludhiana
3.	Lalheri	219	Khanna	Ludhiana
4.	Singhpura	111	Mohali	Mohali

H. K. MEHTA
Dy. Director (P&D)

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

New Delhi-110058, the 17th January 2012

CORRIGENDUM

No. 20-7/2011-CR(G.N.)—In exercise of the powers conferred under Sub-section (2) of Section 23 of Indian Medicine Central Council Act, 1970 the Registrar, Central Council of Indian Medicine, New Delhi hereby further amends the Central Register of Indian Medicine as under :—

1. At Serial No. 95787 in Central Register of Indian Medicine pertaining to Bihar State published in the Gazette of India Notification No. 28 dated the 14th July 2007, be read as "Vivek Sharma", instead of Vivek.
2. At Serial No. 27391 in Central Register of Indian Medicine pertaining to Kerala State published in the Gazette of India Notification No. 51 dated the 17th December, 1994, be read as "Koviyakom Kizhakke Madom", instead of K. G. Padmanabha Prabhu.
3. At Serial No. 47688 in Central Register of Indian Medicine pertaining to Maharashtra State published in the Gazette of India Notification No. 40 dated the 5th October 1996, be read as "Dr. (Mrs.) Lad Meena Deepak", instead of Murkute Meenal Balkrishna D/o Murkute Balkrishna.

P. R. SHARMA
Registrar

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

New Delhi, the

No. 13-32/2012 CCH/CRH-Part-I—The Central Council of Homoeopathy in pursuance of Regulation 9 of Homoeopathy Central Council (Registration) Regulations, 1982, read with Sections 21, 25 and 26 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973, (59 of 1973) removes the following names/entries from the Central Register of Homoeopathy (Part-I) published in the Gazette of India on 09.10.2004, 15.11.2008 and 24.04.2010 respectively :—

Arunachal Pradesh & Himachal Pradesh Part-I												
S.No	Name	Father's/ Husband's Name	Address a) Residential b) Professional	Qualification a) General b) Medical	Dates on which qualifications were obtained.	Name of institution from which registrable Qualification was obtained	State in which Registered and the authority granting the State Registration	Date of registration in State Register	Registration number given in the State Register	Additional medical qualification with date obtaining and name of authority granting the qualification	Date and reason(s) for removal from the Central Register, if any	S.No in the Principal Central Register Part-I
1	Dr. Samir Kumar De		4 1) P.O. & Village Beraberi, Hooghly. 2) S.M.O. (H) P.H.C. Bordumsa, P.O. Bordumsa, Changlang Dist, (A.P.)	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dr. Samir Kumar De	Sri Mahtura Mohan De		D.M.S.	Jun-77	Council of Homoeopat hic Medicine West Bengal	Arunachal Pradesh	05.09.2001	O18		Due to removal from State Register	37878 (CRH) 15.11.08
2	Dr. Pranab Kumar Neog	Sri Monu Neog	DST Colony Daporijo, District Upper Subansiri, (Aru. Pradesh)	D.H.M.S	Oct-98	Board of Homoeopat hic System of Medicine Assam (CCH Regulation).	Arunachal Pradesh	26.04.2002	O29		do-	38907 (CRH) 15.11.08
3	Dr. (Mrs.) Nalini Prava Behera	Sri Ananda Ram Behera	C/o, Lingaraj Behera, Deptt. of Chemistry NERIST P.O., Nirjuli	BHMS	Aug-01	Sambalpur University	Arunachal Pradesh	16.01.2003	O32		do-	37613 (CRH) 15.11.08

4	Dr. Surendra Kumar	Sri Jagnath Prasad	C/o Principal North East Homeopathy Medical College And Hospital Vivek Vihar, Itanagar, Arunachal Pradesh	BHMS	May-89	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University	Arunachal Pradesh	17.01.2003	O33		do-	38565 (CRH) 15.11.08
5	Dr. Pemi Rida	Sri Gipe Rida	Village Liromoba, P.O. Liromoba, West Siang (A.P.)	BHMS	Jul-03	University of Calcutta	Arunachal Pradesh	26.09.2003	O35		Due to removal from State Register	39290 (CRH) 15.11.08
6	Dr. Vivek Kumar	Sri Ravindra Kumar Singh	C/o Principal North East Homeopathy Medical College And Hospital Vivek Vihar, Itanagar, Arunachal Pradesh	BHMS	Nov-98	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University	Arunachal Pradesh	30.01.2004	O39		do-	38582 (CRH) 15.11.08
7	Dr. Kanak Kumar	Sri Ram Sundra Ad	C/o Principal North East Homeopathy Medical College And Hospital Vivek Vihar, Itanagar, Arunachal Pradesh	BHMS	Aug-99	Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University	Arunachal Pradesh	30.01.2004	O40		do-	38486 (CRH) 15.11.08
8	Dr. Dipanwita Das	Sri A.N. Das	Dayal Homoeo Clinic Faga Mepo Complex New Colony Roing, P.O. Roing (A.P.)	D.H.M.S	Aug-03	Board Homoeopathic System of Medicine Guwahati Assam CCH Regulation.	Arunachal Pradesh	30.04.2005	O48		do-	37845 (CRH) 15.11.08
9	Dr. Dinesh Sehajpal	Sh. R. G. Sehajpal	Ward No. - 1, Nalagarh, Dist. Solan	DHMS	1989	Bihar University, Muzaffarpur	Himachal Pradesh	21.07.1990	65-A		do-	28238 (CRH) 09.10.2004
10	Dr. Suruchi Sood	Sh. Ved Prakash Sood	HIG No. - 46, Phase - II, Housing Board Colony, Saprun, Solan	BHMS	2006	Punjab University	Himachal Pradesh	06.08.08	199-A		do-	49177 (CRH) 24.04.2010

LALIT VERMA
Registrar

No. 13-32/2012 CCH/CRH-Part-II—The Central Council of Homoeopathy in pursuance of Regulation 9 of Homoeopathy Central Council (Registration) Regulations, 1982, read with Sections 21, 25 and 26 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973, (59 of 1973) removes the following names/entries from the Central Register of Homoeopathy (Part-II) published in the Gazette of India on 02.01.1993 (renewed on 28.10.2006), 09.10.2004 and 15.11.2008 respectively :—

Arunachal Pradesh & Himachal Pradesh Part-II								
S.No	Name	Father's/ Husband's Name	Address a) Residential b) Professional	State in which Registered and the authority granting the State registrations	Date of registration in State Register	Registration number given the State register	Date and reason(s) for removal from the Central Register, if any	S.No In the Principal Central Register Part- II
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Shri Bali Narendra Nath	Late Gursaran Bali	Qtr. T-III, E-Sector, Naharlagun Papum Pare District Arunachal Pradesh	Arunachal Pradesh	08.11.2000	2	Due to removal from state register	60536 (CRH 15.11.08)
2	Mahendra Kumar Saxena	Sri J. S. Sexsena	Qtr. 565 'D' Sector Naharlagun Arunachal Pradesh	Arunachal Pradesh	08.11.2000	4	do-	60550 (CRH 15.11.08)
3	Mrs. Monju Rani Paul	Sri Ranit Kumar Paul	Rama Krishna Sarani, Sorai Road P.O. Link Road Silichar, Dist Kachar (Assam) Pin-78006	Arunachal Pradesh	04.12.2000	9	do-	60539 (CRH 15.11.08)
4	Sri Ranjit Kumar Paul	Late Hriday Ranjan Paul	Rama Krishna Sarani, Sorai Road P.O. Link Road Silichar, Dist Kachar (Assam) Pin-78006	Arunachal Pradesh	04.12.2000	10	do-	60540 (CRH 15.11.08)

5	Sri Kailash Chand Didwania	Sri Babul Lal	Samrat 19 Akashdweep Complex Ganga, Itanagar (Arunachal Pradesh)	Arunachal Pradesh	15.11.2000	13	Due to removal from state register	60521 (CRH 15.11.08)
6	Mrs. Tilotama Roy	Sri Sankar Tilotama	Qtr. No R.C.C. F-Sector, Naharlagun (A.P.)	Arunachal Pradesh	13.11.2000	20	do-	60542 (CRH 15.11.08)
7	Sri Sankar Chandra Roy	Late Santosh Chandra Roy	C/o Sri Ajit Sharma, House No. 41 Gandhi Basti P.O. Silpukhuri, Pin No. 781003 Guwahati (Assam) Pub-Sarania.	Arunachal Pradesh	13.11.2000	21	do-	60543 (CRH 15.11.08)
8	Sri Janak Kumar Sarkar	Late B.K. Sarkar	Remedy Homoeo Clinic Nirjuli, Arunachal Pradesh	Arunachal Pradesh	27.11.2000	24	do-	60547 (CRH 15.11.08)
9	Sri Nirod Ranjan Mandal	Sri Nagendra Mandal	1) Uttar Bhomoraguri P.O. Amlagan, Dist Nowgaon (Assam) 2) C/o Jagdish Homoeo Clinic (Ambagan) Village Uttar Bhomura guri P.O. Ambagan Pin-782120 Dist Nagaon (Assam)	Arunachal Pradesh	03.09.2002	26	Due to removal from state register	60528 (CRH 15.11.08)

10	Dr. Saudagar Mall Minocha	Sh. J.D. Minocha	Daizy Bank, Jakhu, Shimla	Himachal Pradesh	12.03.1984	3-B	do-	13286 (CRH 02.01.1993) 1804 (renewed on 28.10.06)
11	Dr. Mani Ram Chauhan	Sh. J.R. Chauhan	Vill. Daula, P.O. Dhuwala, Dehra, Kangar.	Himachal Pradesh	22.02.1985	68-B	do-	3863 (CRH 02.01.1993) 624 (renewed on 28.10.06)
12	Dr. K.P. Bhatt	Sh. Nitya Nand	35/4, Nabha House, Shimla-4	Himachal Pradesh	25.04.1985	247-B	do-	2727 (CRH 02.01.1993) 469 (renewed on 28.10.06)
13	Dr. Vicram Anand	Sh. J.K. Anand	Neelakanth, Housing Board Colony, Jakhu, Shimla - 1	Himachal Pradesh	16.08.1985	664-B	Due to removal from state register	829 (CRH 02.01.1993) 127 (renewed on 28.10.06)
14	Dr. Man Mohan K. Bansal	Sh. A.R. Bansal	Bansal Cottage, Park, Colony, Sanjauli, Shimla	Himachal Pradesh	20.05.1985	385-B	do-	59234 (CRH 09.10.2004)
15	Dr. R.P. Rais	Sh. D.C. Rais	Floura Hotel, Shimla - 1,	Himachal Pradesh	23.05.1985	411-B	do-	59999 (CRH 09.10.2004)

LALIT VERMA

Registrar

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2011
 PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2011

5	Sri Kailash Chand Didwania	Sri Babul Lal	Samrat 19 Akashdweep Complex Ganga, Itanagar (Arunachal Pradesh)	Arunachal Pradesh	15.11.2000	13	Due to removal from state register	60521 (CRH 15.11.08)
6	Mrs. Tilotama Roy	Sri Sankar Tilotama	Qtr. No R.C.C. F-Sector, Naharlagun (A.P.)	Arunachal Pradesh	13.11.2000	20	do-	60542 (CRH 15.11.08)
7	Sri Sankar Chandra Roy	Late Santosh Chandra Roy	C/o Sri Ajit Sharma, House No. 41 Gandhi Basti P.O. Silpukhuri, Pin No. 781003 Guwahati (Assam) Pub-Sarania.	Arunachal Pradesh	13.11.2000	21	do-	60543 (CRH 15.11.08)
8	Sri Janak Kumar Sarkar	Late B.K. Sarkar	Remedy Homoeo Clinic Nirjuli, Arunachal Pradesh	Arunachal Pradesh	27.11.2000	24	do-	60547 (CRH 15.11.08)
9	Sri Nirod Ranjan Mandal	Sri Nagendra Mandal	1) Uttar Bhomoraguri P.O. Amlagan, Dist Nowgaon (Assam) 2) C/o Jagdish Homoeo Clinic (Ambagan) Village Uttar Bhomura guri P.O. Ambagan Pin-782120 Dist Nagaon (Assam)	Arunachal Pradesh	03.09.2002	26	Due to removal from state register	60528 (CRH 15.11.08)

10	Dr. Saudagar Mall Minocha	Sh. J.D. Minocha	Daizy Bank, Jakhu, Shimla	Himachal Pradesh	12.03.1984	3-B	do-	13286 (CRH 02.01.1993) 1804 (renewed on 28.10.06)
11	Dr. Mani Ram Chauhan	Sh. J.R. Chauhan	Vill. Daula, P.O. Dhuwala, Dehra, Kangar.	Himachal Pradesh	22.02.1985	68-B	do-	3863 (CRH 02.01.1993) 624 (renewed on 28.10.06)
12	Dr. K.P. Bhatt	Sh. Nitya Nand	35/4, Nabha House, Shimla-4	Himachal Pradesh	25.04.1985	247-B	do-	2727 (CRH 02.01.1993) 469 (renewed on 28.10.06)
13	Dr. Vicram Anand	Sh. J.K. Anand	Neelakanth, Housing Board Colony, Jakhu, Shimla - 1	Himachal Pradesh	16.08.1985	664-B	Due to removal from state register	829 (CRH 02.01.1993) 127 (renewed on 28.10.06)
14	Dr. Man Mohan K. Bansal	Sh. A.R. Bansal	Bansal Cottage, Park, Colony, Sanjauli, Shimla	Himachal Pradesh	20.05.1985	385-B	do-	59234 (CRH 09.10.2004)
15	Dr. R.P. Rais	Sh. D.C. Rais	Floura Hotel, Shimla - 1,	Himachal Pradesh	23.05.1985	411-B	do-	59999 (CRH 09.10.2004)

LALIT VERMA
Registrar

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2011
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2011